

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४१७] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर १४, १९६६/अग्रहायन २३, १८८८

No. 417] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 1966 AGRAHAYANA 23, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW
(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December 1966

S.O. 3873.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1966 (47 of 1966), the Central Government hereby appoints the 14th day of December, 1966 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. F. 7(6)/66-Elec.]

S. P. SEN-VARMA, Secy.

(1691)

